

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

| उद्योग                                                 | बकाया स्थिति      |          |          |          | वृद्धि (%)                |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------|--------------|
|                                                        | मार्च 21,<br>2025 | 2025     |          | 2026     | वित्तीय वर्ष में<br>अब तक | वर्ष-दर-वर्ष |
|                                                        |                   | जन. 24   | दिसं. 31 | जन. 31   | 2025-26                   | 2026         |
|                                                        |                   | 1        | 2        | 3        | 4                         | %            |
| I. बैंक ऋण (II+III)                                    | 18243972          | 17868479 | 20322515 | 20475382 | 12.2                      | 14.6         |
| II. खाद्यान्न ऋण                                       | 36531             | 56179    | 87972    | 89295    | 144.4                     | 58.9         |
| III. गैर-खाद्यान्न ऋण                                  | 18207441          | 17812300 | 20234543 | 20386087 | 12.0                      | 14.4         |
| 1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां                       | 2287060           | 2253510  | 2509200  | 2509789  | 9.7                       | 11.4         |
| 2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)              | 3985660           | 3913969  | 4390876  | 4388308  | 10.1                      | 12.1         |
| 2.1 सूक्ष्म और लघु                                     | 798473            | 786046   | 1015020  | 1031291  | 29.2                      | 31.2         |
| 2.2 मध्यम                                              | 363245            | 348614   | 422216   | 426211   | 17.3                      | 22.3         |
| 2.3 बड़े                                               | 2823942           | 2779308  | 2953641  | 2930806  | 3.8                       | 5.5          |
| 3. सेवाएं                                              | 5093565           | 4956419  | 5661328  | 5722969  | 12.4                      | 15.5         |
| 3.1 परिवहन परिचालक                                     | 261575            | 256722   | 266820   | 267665   | 2.3                       | 4.3          |
| 3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर                                | 32915             | 33728    | 42275    | 40695    | 23.6                      | 20.7         |
| 3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां                           | 83366             | 81753    | 96721    | 97418    | 16.9                      | 19.2         |
| 3.4 शिपिंग                                             | 7304              | 7180     | 10457    | 10373    | 42.0                      | 44.5         |
| 3.5 विमानन                                             | 46072             | 44823    | 51012    | 49613    | 7.7                       | 10.7         |
| 3.6 पेशेवर सेवाएं                                      | 195957            | 190863   | 210380   | 209054   | 6.7                       | 9.5          |
| 3.7 व्यापार                                            | 1184550           | 1127156  | 1300856  | 1309115  | 10.5                      | 16.1         |
| 3.7.1 थोक व्यापार1                                     | 646099            | 608692   | 708148   | 723122   | 11.9                      | 18.8         |
| 3.7.2 खुदरा व्यापार                                    | 538451            | 518465   | 592708   | 585993   | 8.8                       | 13.0         |
| 3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा                             | 523264            | 514506   | 590851   | 597880   | 14.3                      | 16.2         |
| 3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)2 जिसमें से | 1635102           | 1617898  | 1865190  | 1905207  | 16.5                      | 17.8         |
| 3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)                     | 323182            | 325682   | 352976   | 353406   | 9.4                       | 8.5          |
| 3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)                | 228678            | 219866   | 291503   | 305670   | 33.7                      | 39.0         |
| 3.10 अन्य सेवाएं3                                      | 1123459           | 1081789  | 1226766  | 1235949  | 10.0                      | 14.3         |
| 4. व्यक्तिगत ऋण                                        | 5971696           | 5849356  | 6664044  | 6723042  | 12.6                      | 14.9         |
| 4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं                             | 23201             | 23300    | 22569    | 22360    | -3.6                      | -4.0         |
| 4.2 आवास                                               | 3010477           | 2950974  | 3256397  | 3278420  | 8.9                       | 11.1         |
| 4.3 मीयादी जमा राशि की जमानत पर अग्रिम                 | 141842            | 136461   | 160036   | 154360   | 8.8                       | 13.1         |
| 4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम | 10080             | 9766     | 10150    | 10264    | 1.8                       | 5.1          |
| 4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया                                | 284366            | 292083   | 293898   | 296417   | 4.2                       | 1.5          |
| 4.6 शिक्षा                                             | 137456            | 135865   | 152789   | 154899   | 12.7                      | 14.0         |
| 4.7 वाहन ऋण                                            | 622793            | 615235   | 715647   | 720567   | 15.7                      | 17.1         |
| 4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण4                                | 206284            | 175086   | 380206   | 400517   | 94.2                      | 128.8        |
| 4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण                                  | 1535197           | 1510586  | 1672353  | 1685238  | 9.8                       | 11.6         |
| 5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)                   |                   |          |          |          |                           |              |
| (i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां5                     | 2287794           | 2248829  | 2554979  | 2565250  | 12.1                      | 14.1         |
| (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम6                             | 2239409           | 2191766  | 2755699  | 2735314  | 22.1                      | 24.8         |
| (iii) मध्यम उद्यम7                                     | 601451            | 574228   | 679528   | 682981   | 13.6                      | 18.9         |
| (iv) आवास                                              | 746651            | 747261   | 1028285  | 1030805  | 38.1                      | 37.9         |
| (v) शिक्षा ऋण                                          | 62826             | 63056    | 77388    | 77853    | 23.9                      | 23.5         |
| (vi) नवीकरणीय ऊर्जा                                    | 10325             | 7559     | 11323    | 12243    | 18.6                      | 62.0         |
| (vii) सामाजिक अवसंरचना                                 | 1316              | 983      | 1277     | 1255     | -4.7                      | 27.7         |
| (viii) निर्यात ऋण                                      | 12479             | 12882    | 10749    | 10663    | -14.6                     | -17.2        |
| (ix) अन्य                                              | 49552             | 53143    | 42822    | 40417    | -18.4                     | -23.9        |
| (x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग           | 1864606           | 1793997  | 2001782  | 2007819  | 7.7                       | 11.9         |

टिप्पणियाँ: (1) आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े सेक्शन-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।

(2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।